



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-12052023-245836
CG-DL-E-12052023-245836

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 309]
No. 309]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 12, 2023/वैशाख 22, 1945
NEW DELHI, FRIDAY, MAY 12, 2023/ VAISAKHA 22, 1945

भारतीय उपचर्या परिषद्

आदेश

नई दिल्ली, 11 मई, 2023

फा. सं. 18-24/14776-आईएनसी.-समय-समय पर यथासंशोधित भारतीय उपचर्या परिषद् अधिनियम, 1947 (1947 का XLVIII) की धारा 14 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय उपचर्या परिषद् एतद्वारा निम्नलिखित आदेश जारी करती है :-

जबकि, राउरकेला इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग, महायापल्ली, पोस्ट बेल्लीही, राउरकेला, जिला सुंदरगढ़-770031 (ओडिशा) ओडिशा राज्य सरकार तथा ओडिशा नर्सिंग एंड मिडवाइव्स काउंसिल द्वारा जीएनएम पाठ्यक्रम संचालित करने के लिए मान्यता प्राप्त है।

वहीं, भारतीय उपचर्या परिषद् अधिनियम, 1947 की धारा 14 के तहत मान्यता वापस लेने के लिए प्रधान सचिव (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण), स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, ओडिशा राज्य सरकार, सचिवालय भवन, भुवनेश्वर-751001, ओडिशा को संबोधित नोटिस संख्या 18-24/14776-आईएनसी दिनांक 31.08.2022 को जारी किया गया था। दिनांक 31.08.2022 को जारी नोटिस की एक प्रति राउरकेला इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग, महायापल्ली, पोस्ट बेल्लीही, राउरकेला, जिला सुंदरगढ़-770031 (ओडिशा) को भी भेजी गई थी। जारी किए गए नोटिस में राज्य सरकार से नर्सिंग संस्थान की उपयुक्तता के संबंध में परिषद् को अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया था।

चूंकि, राउरकेला इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग, ओडिशा के संबंध में परिषद् को राज्य सरकार से कोई अनुशंसा प्राप्त नहीं हुई है। यहां तक कि संस्था यानी राउरकेला इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग ने भी जारी किए गए नोटिस का कोई जवाब नहीं दिया है।

वहीं, परिषद् ने इस मामले पर पूरी तरह से विचार किया है। दिनांक 10.12.2021 की निरीक्षण रिपोर्ट के अवलोकन से पता चलता है कि संस्थान में कई मामलों में कमी है, विशेष रूप से वे कमियां जो नैदानिक और शिक्षण सुविधाओं से संबंधित हैं।

अतः, भारतीय उपचर्या परिषद् अधिनियम, 1947 की धारा 14(3)(बी) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए परिषद् यह घोषणा करती है कि दिनांक 16.11.2022 से राउरकेला इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग, महायापल्ली, पोस्ट बेल्डीही, राउरकेला, जिला सुंदरगढ़-770031 (ओडिशा) से जीएनएम मान्यता प्राप्त योग्यता धारक प्रत्येक व्यक्ति ओडिशा राज्य सरकार के आदेशों के अधधीन केवल ओडिशा राज्य में पंजीकृत होने का हकदार होगा।

लेफ्टिनेंट कर्नल (डॉ.) सर्वजीत कौर, सचिव
[विज्ञापन-III/4/असा./90/2023-24]

INDIAN NURSING COUNCIL

WITHDRAWAL ORDER

New Delhi, the 11th May, 2023

F. No. 18-24/14776-INC.—In exercise of the powers conferred under Section 14 of Indian Nursing Council Act, 1947 (XLVIII of 1947), the Indian Nursing Council hereby issues the following order:—

Whereas **Rourkela Institute of Nursing** situated at **Mahaipalli, PO – Beldihi, Rourkela, District Sundargarh - 770031, Odisha** is recognized by State Government of Odisha and Odisha Nurses & Midwives Council to conduct **GNM** Course.

Whereas, a notice no. 18-24/14776-INC dated 31/08/2022 for withdrawal of Recognition under section 14 of Indian Nursing Council Act, 1947 addressed to The Principal Secretary (Health & FW) Department of Health & Family Welfare, Government of Odisha, Secretariat Building, Bhubaneswar – 751001, Odisha was issued. Copy of the notice dated 31/08/2022 was also enclosed to **Rourkela Institute of Nursing** situated at **Mahaipalli, PO – Beldihi, Rourkela, District Sundargarh - 770031, Odisha**. In the notice issued, the State Government was requested to submit their recommendations to the Council as respects Suitability of the nursing institution.

Whereas, the Council has not received any recommendation from the State Government as respects the case of **Rourkela Institute of Nursing**, Odisha. Even the institution **Rourkela Institute of Nursing** has not responded to the notices issued.

Whereas, the Council has considered the matter in its entirety. Perusal of the inspection report dated 10/12/2021 would show that the institution is deficient in many respects especially those relating to deficiencies i.e., clinical and teaching facilities.

Now therefore, the Council exercising powers under section 14(3)(b) of Indian Nursing Council Act, 1947 declares that with effect from 16/11/2022 any person holding a recognized qualification of **GNM Rourkela Institute of Nursing** situated at **Mahaipalli, PO – Beldihi, Rourkela, District Sundargarh - 770031, Odisha** shall be entitled to be registered only in the State of Odisha subject to the orders of State government of Odisha.

Lt. Col (Dr.) SARVJEET KAUR, Secy.
[ADVT.-III/4/Exty./90/2023-24]